



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख 1938 (श0)

(सं0 पटना 341) पटना, शुक्रवार, 22 अप्रील 2016

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

7 अप्रैल 2016

एस० ओ० 98 दिनांक 22 अप्रील 2016—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-48 की उप धारा (i) (संशोधित 1993) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार गन्ना उद्योग विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-SO संख्या-12, दिनांक 17.03.2004 में आंशिक संशोधन करते हुए पेरार्ड वर्ष 2015-16 के लिए राज्य में स्थित कारखाने के प्रत्येक दखलकार द्वारा या उनके निमित्त की गई ईख की खरीद पर भुगतान क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन की दर को ईखापूरक को वास्तविक रूप से प्रति क्विंटल भुगतान किये गये ईख मूल्य के दर के 1.80 प्रतिशत से घटाकर 0.20 प्रतिशत निर्धारित करती है और विहित रीति से इसके भुगतान का आदेश देती है।

(सं० 02/रेगु.-2-7024/2015-815)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 341-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>